

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 305]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 जुलाई 2016—श्रावण 3, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2016

क्रमांक-बी-8-5-2016-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्र. 13015-03-2016-क्रेडिट II, दिनांक 23 फरवरी 2016 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 मौसम खरीफ एवं रबी के लिये तहसील एवं जिला स्तर की अधिसूचना क्रमांक 232, दिनांक 4 जून 2016 एवं क्रमांक 287, दिनांक 13 जुलाई 2016 जारी की गई है. जारी अधिसूचना में मौसम खरीफ एवं रबी 2016 के लिये अधिसूचित फसलों के अतिरिक्त संलग्न सूची अनुसार तहसील एवं जिला स्तर पर उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है. तहसील एवं जिला स्तर की संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल							
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली तहसीलवार फसलों की सूची							
प्रकाशित अधिसूचना क्र. 232 दिनांक 4.6.2016 एवं क्र 287 दिनांक 13.7.2016 के अतिरिक्त निम्नलिखित तहसीलों के समक्ष दर्शाई गई फसलों को जोड़ा जाता है ।							
मौसम	खरीफ वर्ष-2016-2017	500 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली घयनित फसलों की तहसीलवार सूची					
जिला	तहसील	ज्वार	कोदो-कुटकी	मूंगफली	तिल	कपास	
शहडोल	ब्योहारी	ज्वार	कोदो-कुटकी		तिल		
	जयसिंहनगर	ज्वार	कोदो-कुटकी		तिल		
	जैतपुर		कोदो-कुटकी		तिल		
	गोहपारू		कोदो-कुटकी		तिल		
	सुहागपुर		कोदो-कुटकी				
अनूपपुर	पुष्पराजगढ़		कोदो-कुटकी				
	अनूपपुर		कोदो-कुटकी				
देवास	सतवास	ज्वार				कपास	
	उदयनगर					कपास	
	कन्नौद					कपास	
बड़वानी	बड़वानी	ज्वार		मूंगफली		कपास	
	संघवा	ज्वार				कपास	
	राजपुर	ज्वार		मूंगफली		कपास	
	पानसेमल	ज्वार				कपास	
	निवाली	ज्वार		मूंगफली		कपास	
	बरला	ज्वार				कपास	
	पाटी	ज्वार		मूंगफली		कपास	
	ठीकरी					कपास	
सिंगरौली	अंजड़					कपास	
	देवसर	ज्वार	कोदो-कुटकी				
	चितरंगी	ज्वार	कोदो-कुटकी				
	सरई	ज्वार	कोदो-कुटकी				
	सिंगरौली		कोदो-कुटकी				
आगर	माड़ा		कोदो-कुटकी				
	सुसनेर	ज्वार					
	श्यापुर	विजयपुर				तिल	
		कराहल				तिल	
		वीरपुर				तिल	
		बडौदा				तिल	
श्यापुर					तिल		
नीमच	सिंगोली			मूंगफली			
	मनासा			मूंगफली			
जबलपुर	कुण्डम		कोदो-कुटकी				
	बालाघाट	बैहर		कोदो-कुटकी			
		परसवाड़ा		कोदो-कुटकी			
		बिरसा		कोदो-कुटकी			
रतलाम	पिपलोदा					कपास	
	रतलाम					कपास	
	बाजना					कपास	
	सैलाना					कपास	
	रावटी					कपास	

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली जिलावार फसलों की सूची

प्रकाशित अधिसूचना क्र, 232 दिनांक 4.6.2016 एवं क्र 287 दिनांक 13.7.2016 के अतिरिक्त निम्नलिखित जिलों के समक्ष दर्शाई गई फसलों को जोड़ा जाता है ।

क्र	जिला	वर्ष 2016 मौसम खरीफ	
		फसल का नाम	
1	2	3	4
		मूंग	उड़द
1	भोपाल	मूंग	उड़द
2	रतलाम		उड़द
3	मंडला	मूंग	
4	मंदसौर	मूंग	उड़द
5	बड़वानी	मूंग	उड़द
6	सिंगरौली		उड़द
7	आगर	मूंग	उड़द
8	नीमच		उड़द
9	विदिशा	मूंग	उड़द
10	नरसिंहपुर	मूंग	उड़द
11	अनूपपुर		उड़द
12	श्यापुर		उड़द
13	बालाघाट		उड़द
14	शिवपुरी	मूंग	उड़द
15	शहडोल		उड़द
16	जबलपुर	मूंग	उड़द
17	हरदा	मूंग	
18	रीवा	मूंग	उड़द
19	सतना		उड़द
20	अशोकनगर		उड़द
21	अलीराजपुर		उड़द

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल			
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार तहसीलवार की सची			
प्रकाशित अधिसूचना क्र. 232 दिनांक 4.6.2016 एवं क्र 287 दिनांक 13.7.2016 के अतिरिक्त निम्नलिखित तहसीलों के समक्ष दर्शाई गई फसलों को जोड़ा जाता है ।			
मौसम	रबी वर्ष-2016-2017	500 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की तहसीलवार सची	
जिला	तहसील	अलसी	
बालाघाट	लांजी	अलसी	
	खैरलांजी	अलसी	
	वारासिवनी	अलसी	
	कटंगी	अलसी	
	किरनापुर	अलसी	
	लालबर्सा	अलसी	
	बालाघाट	अलसी	
	तिरोडी	अलसी	
	परसवाड़ा	अलसी	
	बैहर	अलसी	
	बिरसा	अलसी	
	शहडोल	सुहागपुर	अलसी
		ब्यौहारी	अलसी
		जैतपुर	अलसी
जयसिंहनगर		अलसी	
गोहपारू		अलसी	
अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	अलसी	
	अनूपपुर	अलसी	
रीवा	जवा	अलसी	
	मउगंज	अलसी	
	हनुमना	अलसी	
	त्यौथर	अलसी	
	सिरमौर	अलसी	
	नईगढ़ी	अलसी	
	सेवरिया	अलसी	
सिंगरौली	देवसर	अलसी	
	चितरंगी	अलसी	
	सिंगरौली	अलसी	
	सरई	अलसी	
	माडा	अलसी	
रतलाम	पिपलोदा	अलसी	
मंदसौर	बालोदा	अलसी	
	मंदसौर	अलसी	
	सीतामउ	अलसी	

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल		
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार जिलों की सूची		
प्रकाशित अधिसूचना क्र, 232 दिनांक 4.6.2016 एवं क्र 287 दिनांक 13.7.2016 के अतिरिक्त निम्नलिखित जिलों के समक्ष दर्शाई गई फसलों को जोड़ा जाता है ।		
	मौसम रबी	वर्ष-2016-2017
क्रमांक	जिला	मसूर
1	रतलाम	मसूर
2	मंदसौर	मसूर
3	सिंगरौली	मसूर
4	आगर-मालवा	मसूर
5	छिंदवाड़ा	मसूर
6	अनूपपुर	मसूर
7	जबलपुर	मसूर
8	रीवा	मसूर
9	सतना	मसूर